

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम / जनसंचार

पाठ-5 : मुद्रित माध्यम - एक परिचय
कार्यपत्रक - 5

1. 'मुद्रण के आगमन के बाद संचार की दुनिया में क्रांति आ गई'. क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करें।
2. मुद्रित सामग्री को मनुष्यों और समाज के बीच अधिक विश्वसनीय माना गया है। हमारे दैनिक जीवन में समाचार पत्रों के महत्व का उल्लेख करें।
3. प्रत्येक राष्ट्र का अपना स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास होता है। भारत में समाचार पत्रों ने सांस्कृतिक पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन कैसे शुरू किए? वर्णन करें।
4. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई समाचार पत्र प्रकाशित और प्रसारित किए गए। ऐसे किन्हीं दो समाचार पत्रों के नामों का उल्लेख करें जो कि आपको सबसे अधिक पसंद हो। इसका कारण भी दें।
5. भारत में मुद्रण उद्योग के औद्योगिकीकरण का अपना गौरवशाली इतिहास है। भारत में मुद्रण उद्योग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिये।
6. पाठकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न आकारों और रंग योजनाओं में समाचार पत्र मुद्रित किए जाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ ब्रॉडशीट और टैबलॉयड के बीच अंतर कीजिये।
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रौद्योगिकी के आगमन ने लक्षित समूह तक इसकी पहुंच को प्रभावी ढंग से बढ़ा दिया है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लाभ सुझाये।
8. मुद्रित माध्यमों की अपनी अलग पहुंच और महत्व है। उदाहरण के साथ मुद्रित माध्यमों के विभिन्न रूपों पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।
9. पुरानी लकड़ी के ठप्पे द्वारा मुद्रण की तुलना में वर्तमान आधुनिक मुद्रण तकनीक कैसे अलग है? वर्णन करें।
10. दुनिया भर में सूचनाओं के प्रसार में इंटरनेट का अपना प्रभाव है और वैश्विक स्तर पर इंटरनेट ई-पेपर उपलब्ध हैं। इंटरनेट पेपर और संस्करणों की भूमिका का वर्णन अपने शब्दों में करें।